### **SWARAJ SUITING LIMITED**

CIN-L18101RJ2003PLC018359 Email ID – cs@swarajsuiting.com, Phone No.-09414112677 Website- www.swarajsuiting.com

SSL/23-24/CS/048 Date: 09/09/2023

To,

Listing & Compliance Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra, Mumbai- 400051.

Company Symbol: **SWARAJ** Series: **SM** ISIN: **INEOGMR01016** 

Dear Sir/Madam,

Sub.: Newspaper clippings - "Twentieth Annual General Meeting" and "Information on E-voting" and other related information

This is to inform you that the advertisement on the captioned subject was published on September 9, 2023 in the following newspapers:

- i. "Financial Express" all editions, in English Language; and
- ii. "Business Remedies" all editions, in Hindi Language.

Copies of newspaper clippings are attached.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Swaraj Suiting Limited

Rahul Kumar Verma Company Secretary & Compliance Officer M. No. F12348

Encl- As above

**FINANCIAL EXPRESS** 

# न खर्ची - न पर्ची, अब मेरिट पर सरकारी भर्ती Government's New Era of Merit-Based Hiring

## जो ठाना वो कर दिखाया – सुयोग्य हरियाणा









- 1 lakh ten thousand merit based government jobs by present State Government & sixty thousand in pipeline this year
- Interview-free Group C & D recruitment process to ensure impartial and transparent recruitment
- 'One Time Registration Facility' Relief from repeatedly applying for jobs and paying fees
- Common Eligibility Test (CET) for providing relief from repeated competitive exams
- Provision of exam for nomination quota of IAS / HCS to ensure merit

🗲 हम देश के युवाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। अधिक से अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए हमारी सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। ""



### M K PROTEINS LIMITED

CIN: L15500HR2012PLC046239

Registered Office: Naraingarh Road, Vill. Garnala Ambala City Haryana-134003 Email: compliancemkproteins@gmail.com | Website: http://www.mkproteins.in/

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Friday, September 29, 2023 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'), to transact the business as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Rules made there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations) read with applicable guidelines/circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA circulars') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars') (collectively referred to as 'Relevant Circulars').

In accordance with the Relevant Circulars, the Notice of AGM has been sent through electronic mode only, on September 7, 2023, to those Members whose email IDs are registered with the Company or its Registrar & Transfer Agents or the Depositories. The AGM Notice along with Explanatory Statement is also be available on the Company's website at www.mkproteins.in, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and also on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

The Venue of the Meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The facility of appointing Proxies by the Members will not be available as this AGM is being conducted through VC/OAVM.

Instructions for E-Voting and Voting during AGM As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Secretarial Standards-2 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ('SEBI Listing Regulations'), and SEBI circular dated December 9, 2020, the Company is pleased to provide its Members with the facility to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the AGM Notice. The business can be transacted through voting by electronic means. The Company has made arrangements with NSDL to facilitate e-voting and has engaged the services of NSDL for participating in the AGM through VC/OAVM. The detailed instructions for remote e-voting and the manner of joining e-AGM are given in the Notice of the AGM.

Members are requested to note the following:

procedure as mentioned in the AGM Notice.

Place: Ambala

Date: 07.09.2023

Cut-off date for members eligible to vote Friday, 22nd September, 2023 Commencement of E-voting Tuesday, 26th September 2023 from 9:00 a.m. (IST) Conclusion of E-voting Thursday, 28th September 2023 till 5:00 p.m. (IST) Saturday, 23<sup>rd</sup> September 2023 to Friday 29<sup>rd</sup> September 2023 Period OF Book Closure (both days inclusive)

The facility for e-voting shall be made available at the AGM and Members attending the same through VC/OAVM who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their voting rights at the meeting. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and is holding shares as on the cut-off date i.e. September 22, 2023, may obtain login c redentials by sending a request by following the

In case of any query or issue regarding E-voting, please refer to the frequently asked questions ("FAQ") and E-voting manual available at www.evotingindia.com under help section

Company: Mrs Neha Aggarwal, Company Secretary at compliancemkproteins@gmail.com, Registrar and Transfer Agent: Mr. Mukesh Kumar at info@bigshareonline.com and NSDL: evoting@nsdl.co.in

For M K Proteins Limited

Parmod Kumar Managing Director DIN: 00126965



### SWARAJ SUITING LIMITED

CIN: L18101RJ2003PLC018359

F-483-487, RIICO Growth Centre Hamirgarh, Bhilwara-311025, Rajasthan, India M. (91) 9660630663, E - cs@swarajsuiting.com W: www.swarajsuiting.com

NOTICE OF THE 20th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

The 20th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of "SWARAJ SUITING LIMITED" is scheduled to be held on Saturday, September 30, 2023 at 01:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the busi-

ness set out in the Notice calling the AGM. The Notice of the AGM and Annual Report 2022-23, and other documents required to be attached thereto, will be sent electronically to those members of the Company, whose email address is registered with the Company/Registrar and share transfer agent/ Depository Participant(s). The Notice of AGM and the aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.swarajsuiting.com and on the website of the National Stock Exchange of India Limited

("NSE") at www.nseindia.com.

Manner of registering / updating email address: Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to register email address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants and shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details of the Company's registrar and share transfer agent (RTA) Bigshare Services Private Limited at

Manner of Casting vote (s) through e-voting:

The Company is providing the facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, it has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. Accordingly, the facility of casting votes by a Member using remote e-Voting system before the AGM as well as remote e-Voting during the AGM will be provided by NSDL. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of e-Voting From 9.00 a.m. (IST) on Wednesday, 27th September, 2023 Upto 5.00 p.m. (IST) on Friday, 29th September, 2022 During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on Saturday, September 23, 2023 ('Cut-Off date') may cast their vote by remote e-Voting before the AGM. The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off date i.e. Saturday, September 23, 2023. The

manner of voting, including voting remotely ("remote e-voting") by the members holding

shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of AGM. Joining the AGM through VC/OAVM:

Place: Bhilwara

Date: 08.09.2023

Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-voting system. Members may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join General meeting" menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush. More information about the attending the AGM are explained in the Notice of AGM.

Members are requested to carefully read the notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM.

> For Swaraj Suiting Limited Rahul Kumar Verma Company Secretary & Compliance Officer

**Hardwyn** 

#### HARDWYN INDIA LIMITED CIN: L74990DL2017PLC324826

Registered Office address: B-101, PHASE-1, MAYAPURI, NEW DELHI South West Delhi 110064 India

Website: www.hardwyn.com E-mail ID: cs@hardwyn.com NOTICE OF 06th ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

- Notice is hereby given that the 06th Annual General Meeting (AGM) of the members of Hardwyn India Limited (the Company) will be held on Saturday, 30th day of September, 2023 at 01:00 P.M. IST through Video-Conferencing/Other Audio-visual means(VC/OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder read with General Circular issued from time to time, respectively circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars").
- 2. Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended March 31, 2023 of the Company has been sent to all the members, whose email ids are registered with the Company/RTA/Depository participant(s), as on the cut-off date i.e. 01st September, 2023. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars. The Notice and the Annual Report will also be available and can be downloaded from the website of the Company www.hardwyn.com
- The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by Central Depository Services (India) Limited('CDSL') and the detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on 27th September, 2023 (09:00 A.M.) and end on 29th September, 2023 (05:00 P.M.) During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 23th September, 2023, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through in person shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act. Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered
- with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report 2022-23 along with AGM Notice by email to cs@hardwyn.com . Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting
- The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Sunday, 24<sup>th</sup> September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive).
- 6. The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 sent to members in accordance with the applicable provisions in due course.

For Hardwyn India Limited

Rubaljeet singh sayal

Managing Director & CFO

DIN: 00280624

thousand

nineteen and

केनरा बैंक 📣 Canara Bank

Place: Delhi

Jhajjar Harvana - 124507

1.

Date: 08-09-2023

**BRANCH OFFICE:-**

CANARA BANK, RAILWAY ROAD, BAHADURGARH (A GOVT, OF INDIA UNDERTAKING) DEMAND NOTICE [SECTION 13(2)] TO BORROWER/ GUARANTOR/MORTGAGOR

A notice is given that the under mention borrower has defaulted the repayment of principal and payment of interest in respect of following loan accounts obtained from the bank and the account has turned to be the Non Performing Assets. Notices were issued to the company and guarantors under section 13(2) of securitization and reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 on their last known address. We are here by informing this demand notice by the way of this public notice about the same.

Name of the Borrower/ Guarantors Address		Description of Movable Property	Date of Demand notice	Outstanding Amount
	27-A-10-A-2 1/10-20-01	Hypothecation Charge On Vehicle Eeco Cng 5 Seater With Ac Registration Number HR 89 5583 Manufacture		100

Rs. 5,76,019.69/-(Rupees five lakh seventy six Suzuki India Ltd., Chasis No. MA3ERLF1S00695581., Engine No. G12BN676268, Colour Superior White Registered On The Name Of Sh. Manjeet S/o Sh. Jai Bhagwan

paisa sixty nine only) interest and charges thereon

2. 1. Sh. Rajender Kumar S/O Hypothecation Charge On Vehicle Innova Crysta 2.4 G, 04.09.2023 Rs. 17,24,509.81/-Sh. Ramesh Chander (Borrower Registration Number Hr 13 N 4607, Manufactured By Toyota ) Shop number 7, Anaj mandi Kirloskar Motor Pvt. Ltd., avant Garde Bronze, Chasis No. MBJJB8EM801544208-0618 , Enjine Number 2GDA207187 2. Smt. Sushma Goyal W/O Sh. Registered On The Name Of Rajender Kumar S/o Ramesh Chander.

(Rupees seventeen lakh twenty four thousand five hundred nine Rajender Kumar (legal heir) Shop number 7, Anaj mandi and paisa eighty one only) interest and charges thereon

3. Sh. Vinod Kumar S/O Ram Hypothecation Charge On Vehicle Maruti Wagon R 04.09.2023 Rs. 6,06,918.89/-Chand Address1: J-12. Block J, West Green Lxi, Registration Number DL 8CAS 0886, Manufactured By (Rupees six lakh Patel Nagar Central Delhi - 110008 Maruti Suzuki India Plt. Chasis Number MA3EWDE1S00C79246 Address 2: Flat number 704, trump Engine Number K10BN7989934, Colour Superior White Registered

nine hundred eighteen and paisa eighty nine only) Authorised Officer, Canara Bank





Date: 08.09.2023

Place: Bahadurgarh

tower, Omaxe City Bahadurgarh. On The Name Of Vinod Kumar 5/o Ram Chand

six thousand

New Delhi

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। देश

की सबसे बड़ी खुदरा विक्रेता

कंपनी रिलायंस रिटेल को

अर्थव्यवस्था में विस्तार एवं खेल

गतिविधियों में तेजी आने से अगले

तीन वर्षों में खेल परिधान कारोबार

में पांच गुना वृद्धि होने की उम्मीद

है। रिलायंस रिटेल के फैशन एवं

जीवनशैली खंड के अध्यक्ष एवं

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अरिवर्लेश प्रसाद ने बृहस्पतिवार

को अपने खेल परिधान ब्रांड

'परफॉर्मेक्स' और अखिल

भारतीय फुटबॉल महासंघ के बीच

एक साझेदारी की घोषणा के

अवसर पर यह बात कही। इस

साझेदारी के तहत परफॉर्मेक्स

भारतीय फुटबॉल टीम को

आधिकारिक वेशभूषा मुहैया

कराएगी। प्रसाद ने कहा कि लोग

अब क्रिकेट से इतर अन्य खेलों

में भी दिलचस्पी ले रहे हैं और

खेलों को करियर के रूप में

अपनाने की सोच भी बढ़ रही है।

ऐसी स्थिति में परफॉर्मेक्स के रूप

में रिलायंस रिटेल लोगों को एक

किफायती विकल्प मुहैया कराने

में लगी हुई है। प्रसाद ने देश में

खेल परिधानों का बाजार अभी

छोटा होने का जिक्र करते हुए

बताया, ''हम इस खंड के विस्तार

में उत्प्रेरक बने हुए हैं। ऐसी स्थिति

में हमें मौजूदा स्थिति से आगे ही

कंपनी की गैर-महानगरीय

बाजारों में भी कई स्टोर खोलने

बिज्ञनेस रेमेडीज

## सेंसेक्स ३३३ अंक बढ़कर 66,598 के स्तर पर हुआ बंद

**बिजनेस रेमेडीज/मुंबई।** कमजोर वैश्विक संकेतों के बावजूद एचडीएफसी बैंक, एलएंडटी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी दिग्गज कंपनियों में खरीदारी आने से स्थानीय शेयर बाजार लगातार छठे कारोबारी सत्र में बढत के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 333.35 अंक यानी 0.50 प्रतिशत बढ़कर 66,598.91 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 501.36 अंक यानी ०.७५ प्रतिशत तक चढ़कर 66,766.92 पर पहुंच गया था।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का सूचकांक निफ्टी भी 92.90 अंक यानी 0.47 प्रतिशत बढ़कर १९,८१९.९५ पर बंद हुआ। इस तरह दोनों मानक सुचकांक लगातार छठे कारोबारी सत्र में बढ़त लेकर बंद हुए। इन छह सत्रों में निफ्टी 473 अंक यानी तीन प्रतिशत चढा है जबकि सेंसेक्स में 1.434 अंक यानी 2.41 प्रतिशत की तेजी रही है। सेंसेक्स के शेयरों में एनटीपीसी, टाटा मोटर्स, लार्सन एंड दुब्रो, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन, पावर ग्रिड और भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख रूप से बढ़े। दूसरी ओर आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंदा, टाटा स्टील, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी



सर्विसेज और जेएसडब्ल्यू स्टील में गिरावट दर्ज

एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख एस रंगनाथन ने कहा, 'जी20 शिखर सम्मेलन से पहले बैंक निफ्टी के साथ ही सार्वजनिक कंपनियों और अवसंरचना शेयरों में अच्छी तेजी से उत्साहित होकर सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई से कुछ प्रतिशत अंक ही दूर रह गया है।' रंगनाथन ने कहा कि कमजोर मॉनसून के बावजूद बाजार आशावादी है, क्योंकि सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों में निवेशकों की सकारात्मक रुचि देखी गई।

आरबीआई के वृद्धिशील सीआरआर को चरणबद्ध तरीके से वापस लेने की घोषणा के

बाद बैकिंग शेयरों में तेजी आई। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि अमेरिका में अगस्त के बेरोजगारी के आंकडों से वैश्विक बाजार लडखडा गए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हड़ताल के कारण गैस की कीमतों में वृद्धि से आगे मंदी की स्थिति पैदा होती दिख रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि घरेलु बाजार ने वैश्विक संकट के संकेतों से बेपरवाह होकर एक बार फिर लचीलापन दिखाया और तेजी दर्ज की। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को शुद्ध रूप से 758.55 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की।

#### खेल परिधान कारोबार तीन एएचए सोलर टेक्नोलॉजीस लि. को कंस्लटेंसी सर्विस साल में पांच गुना बढ़ने की के लिए एचपीसीएल से मिला 30 लाख रुपए का ऑर्डर उम्मीदः रिलायंस रिटेल

**बिजनेस रेमेडीज/जयपुर।** अहमदाबाद आधारित एनर्जी कंस्लटेंसी, सोलर सॉफ्टवेयर, नेट जीरो एडवाईजरी और सोलर मार्केट प्लेस सेगमेंट में कार्य करने वाली प्रमुख कंपनी एएचए सोलर टेक्नोलॉजीस लि. ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि कंपनी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) से देश की विभिन्न लोकेशनों पर सोलर पॉवर प्लांट के लिए प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट संबंधित कंस्लटेंसी सर्विस देने के लिए ऑर्डर हासिल हुआ है। ऑर्डर की वेल्यू 30 लाख रुपए है। गौरलतब है कि जुलाई,2023 में कंपनी का आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर आया था तब कंपनी ने 157 रुपए प्रति शेयर



के भाव से 818400 शेयर जारी कर 12.85 करोड रुपए जुटाए थे। अल्पावधि में कंपनी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है और वर्तमान में कंपनी का शेयर बढ़कर 361.05 रूपए प्रति शेयर के भाव पर कारोबार कर रहा है। कंपनी ने इससे पहले ४७३ रुपए का उच्चत्तम स्तर छुआ था।

### नजारा टेक्नोलॉजीज में 410 करोड़ रुपये निवेश करेगा एसबीआई म्यूचुअल फंड

**बिजनेस रेमेडीज/मुंबई।** एसबीआई म्यूचुअल फंड (एमएफ) नजारा टेक्नोलॉजीज में 410 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। नजारा टेक्नोलॉजीज ने बुहस्पतिवार को बताया कि एसबीआई एमएफ निजी नियोजन के माध्यम से उसके इक्विटी शेयरों के तरजीही आवंटन को लेकर सहमत हुआ है। गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया मंच ने कहा कि इन शेयरों का अंकित मल्य चार रूपये है। कंपनी एसबीआई एमएफ को निजी नियोजन के आधार पर 714 रुपये प्रति शेयर की दर से 57,42,296 शेयर जारी करेगी, जिनका कुल मूल्य 409.99 करोड़ रुपये होगा। कंपनी ने बयान में कहा कि इस कोष का निवेश एसबीआई म्यूचुअल फंड की तीन योजनाओं- एसबीआई मल्टीकैप फंड, एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड और एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड के जरिये किया जाएगा। इसी सप्ताह जेरोधा के नितिन और निखित कामत ने भी कंपनी में 100 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

### तिजारिया पॉलीपाइप्स लिमिटेड

CIN: L25209RJ2006PLC022828

SP-1-2316, रीको औद्योगिक क्षेत्र, रामचंद्रपुरा ,सीतापुरा एक्सटेंशन ,जयपुर-302022 टेलीफैक्स: 0141-2333722, ईमेल: <u>Investors@tijaria-pipes.com</u>, वेबसाइट: <u>www.tijaria-pipes.com</u>

17th वार्षिक साधारण सभा एवं रिमोट ई -वोटिंग की जानकारी एवं बुक क्लोजर की सूचना इस प्रकार नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुधवार 27 सितंबर 2023 को 11:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय SP-1-2316, RIICO औद्योगिक क्षेत्र, रामचंद्रपुरा, सीतापुरा एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान में 29 अगस्त 2023 के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों को पास करने के लिए आयोजित की जाएगी। एजीएम का नोटिस सभी सबस्यों को भेज दिया गया है एवं कंपनी की वेबसाइट www.tijaria-pipes.com और एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम २०१३ की धारा १०८ और समय-समय पर संशोधित प्रासंगिक नियम, एवं संशोधित फॉर्म और सेबी (LODR) विनियमन, 2015 के रेगुलेशन 44 के अनुसार सदस्यों को एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर रिमोट ई -वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। रिमोट ई-वोटिंग की अविध रविवार, 24 सितंबर, 2023(10.00 A.M.) से शुरू होगी एवं मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 (5.00 बजे) को समाप्त होगी, उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कंपनी की सदस्य और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के उद्देश्य के लिए गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 से बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (दोनों दिन समावेशी) तक बंद रहेगी।

एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों / लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में 20 सितंबर, 2023 को कटऑफ तिथि के रूप में दिखाई देता है, केवल रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मतदान करने की सुविधा का हकदार होगा। कोई भी व्यक्ति , जो शेयर प्राप्त करता है और कट ऑफ तारीख पर नोटिस प्रेषण और शेयर धारण करने के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है, evoting@nsdl.co.in or Investors@tijaria-pipes.com पर एक अनुरोध भेजकर अपना लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

स्थान: जयपुर तिथि: 09-09-2023 वास्ते तिजारिया पॉलीपाइप्स लिमिटेड (प्रवीण जैन तिजारिया) पूर्णकालिक निदेशक

#### रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम एमडी के बढ़ना है। हम तीन साल में पांच गुना तक बढ़ सकते हैं।" रूप में दीपक गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी रिलायंस रिटेल ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एवं हैदराबाद समेत कई शहरों में परफॉर्मेक्स के 11 स्टोर खोले हैं। आने वाले समय में

**बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली।** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उदय कोटक के इस्तीफे के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में दीपक गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कोटक महिंद्रा बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि आरबीआई ने सात सितंबर, 2023 को अपने पत्र के माध्यम से गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दी। उनकी नियुक्ति दो सितंबर, 2023 से दो महीने के लिए प्रभावी है। उम्मीद है कि आरबीआई इस दौरान बैंक के पूर्णकालिक एमडी की नियुक्ति को मंजूरी दे देगा। उदय कोटक ने अपने कार्यकाल से लगभग चार महीने पहले एक सितंबर को बैंक के एमडी और सीईओ पढ़ से इस्तीफा ढ़े ढ़िया था।

### निफ्टी फ्यूचर 19606 अंक अहम स्तर...!!!

बाजार में ट्रेडिंग के संबंध में....

@ 19874 पॉइंट पर :-

निफ्टी फ्यचर 19676 अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तर 19909 -19939 - 20008 अंक को छू सकता है निफ्टी फ्यूचर में प्रति यात्मक के लिए 19606 रुपये का महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की स्थिति...!!!

दिनांक 08.09.2023 पर बैंक निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस

@ 45326 पॉइंट पर :-अगले कारोबार के लिए संभवित निफ्टी फ्यूचर ४५००८ अंक के मजबूत स्टॉपलॉस के साथ सबसे महत्वपूर्ण स्तर ४५४०४ -45474 - 45606 अंक को छू सकता है निफ्टी फ्यूचर में प्रति यात्मक के लिए 44808 रुपये का महत्वपूर्ण स्टॉपलॉस के साथ सावधानी की स्थिति...!!! पालन करें!! अब नजर डालते हैं फ्यूचर्स **हेवेल्स इंडिया ( 1457 )** :-स्टॉक सम्बंधित मूवमेंट पर...!! कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पालन करें!! कोटक महिन्द्रा बैंक (1798) के शेयर में 1474 रुपये से :- कोटक ग्रुप की इस अग्रणी 1488 रुपये तक की शॉर्ट टर्म कंपनी के शेयर की कीमत तेजी का रुख दिखाएगा, 1404 फिलहाल 1760 रुपये के रुपये के अनुमानित सख्त आसपास है। 1747 रुपये के स्टॉपलॉस का पालन करें!!

दिखाएगा...!! बाटा इंडिया ( 1727 ) :- लगभग 1424 रुपये से 1408 तकनीकी चार्ट के अनुसार रुपये तक लक्ष्य की संभावना 1707 रुपये के आसपास है!!! सकारात्मक ब्रेकआउट!! 1680 एसबीआई लाइफ ( 1342 ):-रुपये के सपोर्ट से खरीदा जा तकनीकी चार्ट के लाइफ सकने वाला यह स्टॉक 1747 इंश्युरंस सेक्टर के इस शेयर पर रुपये से 1760 रुपये तक के बिकवाली होने की संभावना के लक्ष्य भाव की संभावना है...!

**दिनांक 11.09.2023 शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा ( 1574 )** :- रुपये के आसपास लक्ष्य भाव प्राइवेट बैंक सेक्टर के शेयर में की संभावना है। प्रतिक्रियात्मक दिनांक 08.09.2023 पर 1594 रुपये से 1606 रुपये के लिए 1380 का स्टॉपलॉस निफ्टी फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस तक की शॉर्ट टर्म तेजी का रुख ध्यान में रखें...!! दिखाएगा, 1533 रुपये के **टेक महिंद्रा (1264)** :- इस

निखिल भटट

रिसर्च एनालिस्ट, सेबी पंजीकृत


अगले कारोबार के लिए संभवित अनुमानित सख्त स्टॉपलॉस का शेयर को 1290 / 1303 रुपये के आसपास ओवरबोट स्थिति दर्ज करते हुए बिकवाली की संभावना के साथ इसकी कीमत 1233 रुपये से 1209 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!! 1320 रुपये के स्तर पर एक तेजी का

> **सन फार्मा ( 1135 ) :-** फार्मा सेक्टर का यह स्टॉक 1170 रुपये के स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1117 रुपये से 1108 रुपये के मूल्य स्तर के आसपास लक्ष्य की संभावना है...!!

> **ल्युपिन लि. ( 1135 )** :- फार्मा सेक्टर के इस शेयर को करीब 1164 रुपये स्टॉपलॉस के साथ बेचकर 1120 रुपये से 1108 रुपये का टारगेट प्राइस रहने की संभावना है। ट्रेडिंग के लिए 1170 रुपये का सख्त स्टॉपलॉस का

> टाटा केमिकल्स ( 1089 ) :-इस शेयर को करीब 1108 / 1120 रुपये का स्टॉपलॉस साथ बेचकर की टारगेट प्राइस 1074 रुपये से लेकर 1060 रुपये तक रहने की संभावना है। 1128 रुपये पर तेजी का रुख

> लेखक सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक और इन्वेस्टमेंट पोइन्ट के मालिक हैं। विशेष नोट:- डिस्कलमर/ नीति / शर्तें www.nikhilbhatt.in के अधीन...!!! नोटः शेयरों में निवेश करने से पूर्व निवेशको को वित्तीय सलाहकार की सलाह लेनी



**बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली।** उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया के साथ मिलकर भारत में कृत्रिम मेथा (एआई) पर आधारित सुपरकंप्यूटर बनाने की शु वार को घोषणा की। दोनों कंपनियों ने एक बयान में कहा, 'कंपनियां एआई ढांचा बनाने के लिए मिलकर काम करेंगी जो आज भारत के सबसे तेज सुपरकंप्यूटर से भी अधिक शक्तिशाली है।' इस घोषणा से कुछ दिन पहले एनवीडिया के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जेनसेन हुआंग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। एनवीडिया ने वर्ष 2004 में भारत में परिचालन शुरू किया था और यहां कंपनी के चार इंजीनियरिंग विकास केंद्र गुरुग्राम, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु में हैं।



एफ-483-487. रीको ग्रोथ सेंटर हमीरगढ, भीलवाडा-311025, राजस्थान, भारत मोबाइल : (91) 9660630663, ई-मेल cs@swarajsuiting.com, वेबसाइट: www.swarajsuiting.com

### 20वीं वार्षिक आम बैठक एवं ई-वोटिंग की सूचना

'स्वराज सूटिंग लिमिटेड' के सदस्यों की 20वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') कंपनी अधिनियम, 2013 व उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 संपठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी किए गए मामले पर सभी लागू परिपत्रों के अनुपालन में ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम')/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से एजीएम नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को संचालित करने के लिए शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को दोपहर 01:00 बजे (आईएसटी) आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज. कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाएंगे, जिनका ईमेल पता कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (टॉ) के साथ पंजीकृत है। एजीएम की सूचना और उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.swarajsuiting.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

र्डमेल पते को पंजीकत/अद्यतन करने का तरीकाः डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें और भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है की वे कंपनी के रिजस्टार और शेयर टांसफर एजेंट (आरटीए) बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को <u>investor@bigshareonline.com</u> पर विवरण प्रस्तुत करे।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीकाः कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस उद्देश्य के लिए, उसने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है। तदनुसार, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा और साथ ही एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अविध के दौरान उपलब्ध होगी:

बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) से शुक्रवार, 29 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे तक

ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए एजीएम के नोटिस में प्रदान किया गया है।

डस अवधि के दौरान, शनिवार, 23 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तिथि') तक भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सबस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को कंपनी की चुकता की गई समता अंश पूंजी के उनके हिस्से के अनुपात में होगा। मतदान का तरीका, जिसमें दूरस्थ रूप से मतदान

('बूरस्थ ई-वोटिंग')शामिल है, डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा और जिन सदस्यों ने अपना

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होनाः सबस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सूविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के सामने 'सामान्य मीटिंग में शामिल हों' विवरण के अंतर्गत रखा गया 'वीसी/ओएवीएम लिंक' का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनरोध है कि 'सामान्य बैठक में शामिल हों' विवरण के अंतर्गत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम का लिंक शेयरधारक/सबस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय में भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त

सबस्यों से अनुरोध है कि वह एजीएम की सूचना और विशेष रूप से, एजीएम में शामिल होने के निर्देशों, एजीएम में मतदान करने स्वराज सूटिंग लिमिटेड के लिए

राहुल कुमार वर्मा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 08 सितंबर, 2023

स्थानः जयपुर

### **DEBOCK**

### डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन: L52190RJ2008PLC027160 पंजीकृत कार्यालय:51, लोहिया कॉलोनी, 200 फुट बाय-पास, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021

दूरभाषः+91-7999999975, ईमेलः cs@debockgroup.com, वेबसाइटः www.debockgroup.com

#### 15वीं वार्षिक आम बैठक ई-वोटिंग और पुस्तक बंद करने की सूचना एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे पहले डिबॉक सेल्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड

('कंपनी' के नाम से जाना जाता था) के शेयरधारकों की 15वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') 15वीं एजीएम की सूचना ('एजीएम नोटिस') में निर्धारित अनुसार व्यवसाय करने के लिए 51, लोहिया कॉलोनी, 200 फ़ुट बाईपास, वैशाली नगर, जयपुर-302021 स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एक सामान्य स्थान पर शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को दिन में 12:00 बजे (आईएसटी) आयोजित की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेज दी गई हैं जिनकी मेल आईडी कंपनी/डीपी के साथ पंजीकृत है। एजीएम के नोटिस और वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सबस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत मोड में भेज दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 08 सितंबर, 2023 को पूरा हो गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रिजस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक कंपनी की 15वीं एजीएम के उद्देश्य से रविवार, 24 सितंबर, 2023 से शनिवार, 30 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 संपठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (संशोधित) के नियम 20 के अनुपालन में कंपनी सभी शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और कंपनी ने उपरोक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को नियुक्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.debockgroup.com, सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com और स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (9.00 बजे IST) से वोटिंग के लिए खुला रहेगा और शुक्रवार, २९ सितंबर, २०२३ (५.०० बजे IST) को समाप्त होगा। कंपनी के शेयरधारक, जिनके पास कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। उक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। वें शेयरधारक, जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वें एजीएम में मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वें बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम में दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो बैठक की सूचना भेजने और कट-ऑफ तिथि पर शेयर रखने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

इसके अलावा, कंपनी ने एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया और वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए जयपुर के प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री शुभम जैन (एफसीएस नंबर 58092) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

यदि शेयरथारकों के पास एजीएम/ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे सहायता अनुभाग के तहत www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या  $\operatorname{helpdesk.evoting}(a)$  पर एक ईमेल लिख सकते हैं या  $\operatorname{cdslindia.com}$  पर श्री नितन कुंदर (022-23058738) या श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क

> डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए (पूर्व नाम डिबॉक सेल्स एंड मार्केटिंग लिमिटेड )

मुकेश मनवीर सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक DIN:01765408

सख्त स्टॉपलॉस के साथ खरीदा इंडसइंड बैंक ( 1451 ) : 10

जा सकने वाला यह स्टॉक १८१३ रुपये का फेसवैल्यूका

से 1822 रुपये की निर्धारित फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग यह स्टॉक

लक्ष्य की संभावना है...!! 1830 करीब 1489 स्टॉप लॉस के साथ

रुपये पर तेजी का रुख खरीदा जा सकने वाला प्राइवेट

बैंक सेक्टर के इस स्टॉक में

साथ 1327 रूपये से 1316

दिनांक: 08.09.2023

कर सकते हैं। एजीएम में भाग लेने के बारे में अधिक जानकारी एजीएम के नोटिस में दी गई है।